



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, दिसम्बर 20, 2001/अग्रहायण 29, 1923

No. 629]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 2001/AGRAHAYANA 29, 1923

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2001

सं. 12/2001-सेवा कर

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2001

No. 12/2001-Service Tax

सा.का.नि. 907(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है होटल द्वारा मंडप चलाने वाले के रूप में प्रदान की गई सेवा जिसमें मंडप के संबंध में दी गई करादेय सेवा में भोजन प्रबंध अर्थात् भोजन आपूर्ति सम्मिलित हो और इस संदर्भ में जारी किए गए बिल में यह दर्शाया गया हो कि उसमें भोजन प्रबंधन के दाम भी सम्मिलित हैं, को उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उद्ग्रहणीय पूर्ण सेवा-कर से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 2002 तक जिसके अंतर्गत यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन में :

(1) अभिव्यक्ति "भोजन" का अर्थ पर्याप्त एवं संतुष्ट करने वाला खाना होगा;

(2) अभिव्यक्ति "होटल" का अर्थ एक स्थान जो जनता को व्यवसायिक आधार से खाने और रहने की सुविधा प्रदान करता है, होगा।

[फा. सं. 354/216/2001-टी.आर.यू.]

जी. डी. लोहानी, अवर सचिव

G.S.R. 907(E).—In exercise of the powers conferred by Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service provided by a hotel as mandap keeper in such cases where services provided include catering services, that is, supply of food along with any service in relation to use of a mandap, and the bill issued for this purpose indicates that it is inclusive of charges for catering services from the whole of the service tax leviable thereon under Section 66 of the said Act.

2. This notification shall have effect upto and inclusive of 31st day of March, 2002.

Explanation : For the purposes of this notification :

(i) the expression "food" means a substantial and satisfying meal;

(ii) the expression "hotel" means a place that provides boarding and lodging facilities to public on commercial basis.

[F. No. 354/216/2001-TRU]

G.D. LOHANI, Under Secy.

